

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( अस्माधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 647]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2014—पौष 10, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1876.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर पालिका परिषद्, गोहद, जिला भिण्ड के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक (1)	नगर पालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में शब्दों में (4) (5)	निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)	दल से सम्बद्धता (7)	
1	नगर पालिका परिषद्, गोहद जिला भिण्ड.	अध्यक्ष	-	-	भीकम सिंह कौशल	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	आतमदास	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	भोलाराम बाथम	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	आरती	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	श्रीमती उर्मिला पत्नी दारासिंह	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	गीताबाई लाखन सिंह	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	बन्दना-कृष्ण मुरारी (वल्ली पंडित)	निर्दलीय
8		पार्षद	7	सात	मोहन सिंघई उर्फ कल्लू	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	मुकेश-वीरेन्द्रसिंह	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	नगर पालिका परिषद्, गोहद जिला भिण्ड.	पार्षद	9	नौ	नाजराबेगम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	जगदीश सिंह बाबूजी	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	अशोक सोनी	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	सुशीला-सुनील यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	दीप्ति-रामप्रसाद लला	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	भूरीबाई प्रतापसिंह (छुन्ना)	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	सुनीतकुमार-उमेशचन्द्र	निर्दलीय
17		पार्षद	16	सोलह	निर्मला जाटव	भारतीय जनता पार्टी
18		पार्षद	17	सत्रह	केशवसिंह उर्फ पप्पू	निर्दलीय
19		पार्षद	18	अठारह	मुनेन्द्र सिंह उर्फ गुड्डू तोमर	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1877.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, भिण्ड जिला भिण्ड के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, भिण्ड, जिला भिण्ड.	अध्यक्ष	-	-	कलावती जाटव	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	दागश्री बाबू सिंह कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	माता प्रसाद सोनी	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	इंद्रा सत्यनारायण पाठक	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	सुनील कुमार डिस्क वाले	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	'बंटी बाबा' जितेन्द्र कुमार	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	सुमन गुर्जर	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	रामप्यारी मेवाराम ठेकेदार	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	सुनील सिंह तोमर (पिन्टू)	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	भारती रक्षपाल सिंह राजावत	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	रामू खटीक	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	सुशीला शाक्य	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	अलका अजीत सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	आशा रतनचन्द्र जैन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	श्याम सिंह उर्फ बाबी	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	नगरपालिका परिषद्, भिण्ड, जिला भिण्ड.	पार्षद	15	पन्द्रह	अन्जू उर्फ अन्जुला दीक्षित दिवाकर दीक्षित (जुगगन)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
17		पार्षद	16	सोलह	श्रीकृष्ण सिंह नरवरिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
18		पार्षद	17	सत्रह	अनूप पाण्डेय एडवोकेट	भारतीय जनता पार्टी
19		पार्षद	18	अठारह	अनीस कुरैशी	भारतीय जनता पार्टी
20		पार्षद	19	उन्नीस	निशा भुवनेश कन्हौआ	निर्दलीय
21		पार्षद	20	बीस	गिरजेश शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
22		पार्षद	21	इक्कीस	प्रेमा देवी सोनी पति का नाम रामसेवक सोनी	भारतीय जनता पार्टी
23		पार्षद	22	बाईस	ओमबती सन्तोष यादव	भारतीय जनता पार्टी
24		पार्षद	23	तेईस	योगेन्द्र सिंह (लला)	भारतीय जनता पार्टी
25		पार्षद	24	चौबीस	ललिता गोयल	भारतीय जनता पार्टी
26		पार्षद	25	पच्चीस	शान्ति दोहरे	भारतीय जनता पार्टी
27		पार्षद	26	छब्बीस	मनोज खटीक	इंडियन नेशनल कांग्रेस
28		पार्षद	27	सत्ताईस	शांतिबाई विघाराम रिटा. आरआई	इंडियन नेशनल कांग्रेस
29		पार्षद	28	अट्ठाईस	जयेंद्र सिंह तोमर (पप्पू)	भारतीय जनता पार्टी
30		पार्षद	29	उन्तीस	गिर्जेश दुबे	भारतीय जनता पार्टी
31		पार्षद	30	तीस	निशार बेग उर्फ मधू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
32		पार्षद	31	इक्तीस	रामबेटी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
33		पार्षद	32	बत्तीस	गुलाब श्री वीरेन्द्र शिवहरे	भारतीय जनता पार्टी
34		पार्षद	33	तेतीस	रविन्द्र प्रताप यादव (उर्फ कल्लू)	निर्दलीय
35		पार्षद	34	चौतीस	मुन्नीदेवी हरसेवकसिंह	भारतीय जनता पार्टी
36		पार्षद	35	पैंतीस	राजेन्द्र सिंह बैस	भारतीय जनता पार्टी
37		पार्षद	36	छत्तीस	नीलू सिंह	भारतीय जनता पार्टी
38		पार्षद	37	सैंतीस	अवधेश सिंह कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी
39		पार्षद	38	अड़तीस	राम नरेश	भारतीय जनता पार्टी
40		पार्षद	39	उन्तालीस	मुकेश गर्ग	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1878.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, फूफ जिला भिण्ड के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	नगर परिषद्, फूफ, जिला भिण्ड.	अध्यक्ष	-	-	सन्तोष शर्मा (डेयरी वाले)	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	नगर परिषद्, फूफ, जिला भिण्ड.	पार्षद	1	एक	खुशबू शर्मा प्रदीप शर्मा	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	हसीना	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	दुर्गा सिंह राजावत	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	महेन्द्र सिंह भदौरिया	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	पवन कुमार बघेल	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	मनीष दैपुरिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	लक्ष्मण सिंह	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	चिरीजी देवी भोगीराम	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	रामबहादुर प्रजापति s/o विश्राम प्रजापति	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	श्रीमती राजेश्वरी देवी (राजे)	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	संगीता राजनारायण	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	रमा देवी	निर्दलीय
14		पार्षद	13	तेरह	मनीश तिवारी (राजू टाटा)	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	कैलाशी पुत्रबधु दयाराम	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	अनिल गोयल	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1879.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, मिहोना जिला भिण्ड के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, मिहोना, जिला भिण्ड.	अध्यक्ष	-	-	रेनू शिवमोहन सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	हनुमंत सिंह (गुड्डू)	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	अवनेंद्र सिंह (टिका)	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	मुन्नीदेवी मर्दान सिंह	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	संतराम बरसैना	बहुजन समाज पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	रानीबाई धर्मपाल	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	वीरेन्द्र सिंह यादव	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	सुनीता रविन्द्र ओझा	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	चंद्रवती रमेश चन्द्र	बहुजन समाज पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	हरीबाबू निराला	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	ऊषा देवी अजय चौधरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	नगर परिषद्, मिहोना, जिला भिण्ड.	पार्षद	11	ग्यारह	राजेश कुमार नौरोजी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	विवेक शर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	उमेश (हरी) पालीवाल	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	सुनीता देवी मेथलीशरण गुप्ता	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	रामबेटी कैलाश खटीक	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1880.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, लहार जिला भिण्ड के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, लहार, जिला भिण्ड.	अध्यक्ष	-	-	छककूलाल वर्मा (कुशवाहा)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	रश्मी-अशोक यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	मिथलेश-अनिल (अज्जू) गुप्ता	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	रितु तिवारी-राममोहन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	प्रेमदेवी पत्नी भगवतीप्रसाद	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	नरेशसिंह चौहान "एडवोकेट"	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	नवाव शेख	बहुजन समाज पार्टी
8		पार्षद	7	सात	परम सिंह	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	विनोद कुमार नहले	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	श्रीमती रामरती-दीनदयाल बघेल	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	जितेन्द्र सिंह (जीतू)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	हरिबाबू कुशवाह (हरीनिर्मल)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	कमल किशोर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती मंजूलता राजावत	बहुजन समाज पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	सुसीला-सत्यवीर सिंह	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	कालका प्रसाद "खिलाडी"	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1881.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, दबोह जिला भिण्ड के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, दबोह जिला भिण्ड.	अध्यक्ष	-	-	रूपनारायण खटीक	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	जसवन्त सिंह दोहरे	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	गिरजा देवी-रघुनाथ सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	कल्पना तेहरिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	सना उल्ला (सना)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	अनिल तरसौलिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	सुरेन्द्र कुमार दौहरे	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	शेरे पठान	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	परमो-नन्ना	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	अनीता-जवरसिंह कुशवाह	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	कौशल किशोर कौरव	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	रीतादेवी मुदगिल	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	रफीक खाँ (घड़ी वाले)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	दीवान सिंह कौरव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	मीना कुरचानिया	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1882.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, अकोडा जिला भिण्ड के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, अकोडा, जिला भिण्ड.	अध्यक्ष	-	-	संगीता पत्नी सुदीप	बहुजन समाज पार्टी
2		पार्षद	1	एक	अनीता यादव	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	नगर परिषद्, अकोडा, जिला भिण्ड.	पार्षद	2	दो	नेहने	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	प्राग सिंह	बहुजन समाज पार्टी
5		पार्षद	4	चार	भरतलाल शर्मा	बहुजन समाज पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	विटटन देवी भदोरिया	बहुजन समाज पार्टी
7		पार्षद	6	छः	जसमंत सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	श्रीमती शान्ती देवी पत्नी सीताराम कटारे	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	कैलाश सिंह यादव मुनीम	बहुजन समाज पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	विनीता	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	सत्यस्वरूप	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	रानी चौरसिया	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	राजकुमार शर्मा (गुमने)	निर्दलीय
14		पार्षद	13	तेरह	बीना देवी रामसेवक जाटव	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	रामबेटी	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	आरती यादव	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1883.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, मेहगांव जिला भिण्ड के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, मेहगांव, जिला भिण्ड.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती ममता भदौरिया	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	रामसेवक कुशवाह	समाजवादी पार्टी
3		पार्षद	2	दो	श्रीमती गीता पुरोहित	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	गिरजेशी पत्नी विष्णु कडरे	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	वबुली तोमर योगेंद्र तोमर	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	सुनीता बाई पत्नी रामा	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	नरेंद्र कुमार मिश्रा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	मुरारी सिंह गुर्जर	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	दिनेश भदौरिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	आरती श्रीवास्तव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	रामकुमार सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	गीता	निर्दलीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	नगर परिषद्, मेहगांव, जिला भिण्ड.	पार्षद	12	बारह	रवीना संजय खान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	अमृत लाल खटीक	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	शीला पत्नी हरगोविन्द	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	रामभरोसे जाटव	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1884.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, गोरमी जिला भिण्ड के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, गोरमी, जिला भिण्ड.	अध्यक्ष	-	-	इंजी. प्रेम सिंह सखवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	नारायणी कामता जाटव	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	सुरेन्द्र सिंह कुशवाह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	श्री कृष्ण सखवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	सुशीला श्यामबीर सिंह परमार	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	रामदत्त तिवारी	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	रामेश्वर सिंह राजावत	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	वंदना मनीष थापक	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	सावित्री जय प्रकाश श्रीवास	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	बनवारी जाटव	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	सुमन मुकेश यादव	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	ओमकार यादव	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	रूबी गंभीर सिंह यादव	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	मिथलेश गुर्जर	बहुजन समाज पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	अन्नो मोती खान	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	सुख देवी शम्भू सिंह यादव	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.



अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1885.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, मौ जिला भिण्ड के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, मौ, जिला भिण्ड.	अध्यक्ष	-	-	मुकेश भारद्वाज	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	कविता यादव/छोटे लाल	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	कलावती बाई	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	किरन / तारा सिंह	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	भूरे सिंह	बहुजन समाज पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	सोमता / रामस्वरूप	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	राजाराम	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	नन्द कुमार सोनी	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	बीरेन्द्र उर्फ पप्पू	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	तस्कीन बेगम	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	अरुणा	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	साविरा वेगम	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	विमल सिंह / रघुवीर सिंह	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	मुन्नीवाई / मुन्ना लाल	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	धर्मवीर / सोखीराम	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	कल्याण सिंह यादव	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1886.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, आलमपुर जिला भिण्ड के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, आलमपुर, जिला भिण्ड.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती प्रमिला रामकुमार त्रिपाठी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	जितेन्द्र सिंह कौरव पुत्र बंशगोपाल	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	नगर परिषद्, आलमपुर, जिला भिण्ड.	पार्षद	2	दो	महेन्द्र कुमार अहिरवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	राधेश्याम तीतबिलासी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	भानु प्रताप सिंह कौरव	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	शांति देवी जाटव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	अरुण कुमार कुचिया	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	समीना बानो राईन	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	सैयद अफजल अली	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	श्रीमती अहिल्या देवी चौहान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	इस्लाम	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	कस्तूरी कल्याण सिंह	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	श्रीमती गायत्री अजय मांझी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती गुड्डी हरचरण रायकवार	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती रजनी देवी चौहान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	लाल चन्द्र कुशवाह एडवोकेट	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.